



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 8—सितम्बर 14, 2012 (भाद्रपद 17, 1934)
No. 36] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 8—SEPTEMBER 14, 2012 (BHADRA 17, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.	विषय-सूची	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	733	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	891	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	3	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश..... *
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1279	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... 1537
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम..... *		भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस..... *
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ..... *		भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... *
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट..... *		भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं..... 7843
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)..... *		भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस..... 699
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	733	Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	891	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	3	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1279	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1537
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	7843
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	699
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the -Ministries of the Government of India (other than the		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I — खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

योजना मंत्रालय
(योजना आयोग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 8 अगस्त 2012

संकल्प

सं. ई-11011/1/2009-हिन्दी--योजना आयोग के संकल्प
सं. ई-11011/1/2003-हिन्दी, दिनांक 29 दिसम्बर, 2005 और
संशोधित संकल्प सं. ई-11011/1/2003-हिन्दी, दिनांक
19 मार्च, 2008 का अधिक्रमण करते हुए भारत सरकार
एतद्वारा "योजना मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति" का
निम्नानुसार पुनर्गठन करती है :--

गठन

योजना राज्य मंत्री

अध्यक्ष

गैर-सरकारी सदस्य :

लोक सभा से दो संसद सदस्य

1. डॉ. चरण दास महंत सदस्य
2. श्री प्रहलाद वैकटेश जोशी सदस्य

राज्य सभा से दो संसद सदस्य

3. श्री परवेज हाशमी सदस्य
4. श्री बलवन्त उर्फ बाल आटे सदस्य

संसदीय राजभाषा समिति से दो संसद सदस्य

5. श्री प्रदीप टम्टा सदस्य
6. श्री धर्मेन्द्र यादव सदस्य

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्, एक्सवाई-68, सरोजिनी
नगर, नई दिल्ली का प्रतिनिधि

7. डॉ. परमानन्द पांचाल सदस्य

हिन्दी के प्रचार-प्रसार में रत संस्था-कर्नाटक महिला हिन्दी
सेवा समिति, बेंगलूर के प्रतिनिधि

8. श्री कृष्ण कुमार ग्रोवर, सदस्य
एफ/बी-16, टैगोर गार्डन,
नई दिल्ली-110027

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा नामित गैर-सरकारी
सदस्य

9. श्रीमती कमलादेवी शुक्ल, सदस्य
म. नं. 10-448, ब्रह्मपुर,
सैनेटरी कार्यालय के पास,
गुलवर्गा-585103, कर्नाटक

10. डॉ. सुरेन्द्र जैन, सदस्य
2क 17, मनु मार्ग,
हाउसिंग बोर्ड, अलवर
राजस्थान

11. श्री कृष्ण कुमार हरितवाल, सदस्य
ए-23, बजाज नगर,
जयपुर-15, राजस्थान

योजना मंत्रालय द्वारा नामित गैर-सरकारी सदस्य

12. श्री मनोज शर्मा, सदस्य
जी-40, सैक्टर-3
नौएडा-201301

13. श्री कर्ण देव आर्य शास्त्री सदस्य
आर्य समाज मंदिर
15, हनुमान रोड,
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली

14. डॉ. सी. डी. शास्त्री, सदस्य
404/19 श्री राम कालोनी,
सिविल लाईन रोड, गुरदासपुर
पंजाब

15. डॉ. विश्वमूर्ति शास्त्री, सदस्य
3/127, इन्दिरा विहार, पुरानी जानीपुर
जम्मू-180007

सरकारी सदस्य :

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय

16. सचिव, राजभाषा विभाग सदस्य

17. संयुक्त सचिव, राजभाषा सदस्य

योजना मंत्रालय (योजना आयोग)

18. सचिव, योजना आयोग सदस्य

19. महानिदेशक (यूआईडीएआई) सदस्य

20. प्रधान सलाहकार (एल.ई.एम./डी.पी.पी.पी.) सदस्य

21. अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार सदस्य

22. वरिष्ठ सलाहकार सदस्य
(वी.ए.सी./एच.एच./डब्ल्यू.सी.)

23. वरिष्ठ सलाहकार (आई.सी.टी.) सदस्य

24. वरिष्ठ सलाहकार (एस.जे. एण्ड ई.) सदस्य

25. सलाहकार (अवसंरचना/प्रशासन) सदस्य

26. संयुक्त सचिव (प्रशासन/एफ.आर./एस.पी.) सदस्य

27. निदेशक, जनसाधन अनुसंधान संस्थान सदस्य

28. सलाहकार (पी.ई.ओ.) सदस्य

29. संयुक्त निदेशक (रा.भा.) सदस्य

30. सलाहकार (रा.भा.) सदस्य-
सचिव

कार्य क्षेत्र

2. समिति का कार्य केन्द्रीय हिन्दी समिति और राजभाषा विभाग द्वारा सरकारी कामकाज के लिए हिन्दी के प्रयोग के संबंध में निर्धारित नीतियों को योजना मंत्रालय में कार्यान्वित करवाने के बारे में सलाह देना होगा।

कार्यकाल

3. समिति का कार्यकाल समिति के गठन की तारीख से, निम्नलिखित बातों के अध्वधीन सामान्यतः तीन वर्ष का होगा :—

(क) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

(ख) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक ही समिति के सदस्य रहेंगे।

(ग) किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने अथवा समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे देने के कारण खाली हुए स्थान पर मनोनीत सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य होगा।

मुख्यालय

4. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते

5. गैर-सरकारी सदस्यों को समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए, यात्रा तथा दैनिक भत्ता भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निश्चित दरों पर तथा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 3 फरवरी, 2006 को जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन संख्या II/20034/04/2005-रा.भा. (नीति-2) में निहित निर्देशों के अनुसार दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अम्बरीष कुमार

सलाहकार (रा. भा.)

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 अगस्त 2012

संकल्प

सं. 1/02/2010-हिन्दी--उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के दिनांक 20 नवम्बर, 2008 के संकल्प संख्या 1/06/2006-हिन्दी का अधिक्रमण करते हुए, भारत सरकार

एतद्द्वारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन करती है :—

गठन

उत्तर पूर्वी क्षेत्र श्री पबन सिंह घाटोवार अध्यक्ष
विकास मंत्री

गैर सरकारी सदस्य

लोक सभा से दो संसद सदस्य

1. श्री दीप गोगोई सदस्य
2. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी सदस्य

राज्य सभा से दो संसद सदस्य

3. श्री भुबनेश्वर कालिता सदस्य
4. श्री कुमार दीपक दास सदस्य

संसदीय राजभाषा समिति से दो संसद सदस्य

5. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह सदस्य
(संसद सदस्य, लोक सभा)
6. श्री निर्गो ईरिंग, सदस्य
(संसद सदस्य लोक सभा)

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्, एक्सवाई-68
सरोजिनी नगर, नई दिल्ली से प्रतिनिधि

7. श्री मोहन प्रकाश दुबे सदस्य
25/5 सैक्टर-1 पुष्प विहार,
नई दिल्ली-110017

अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ, 10788-89, झण्डेवाला
रोड, नबी करीम, नई दिल्ली-110055 से प्रतिनिधि

8. श्री हरिकांत नाथ, सदस्य
मंत्री, असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति,
राष्ट्रभाषा प्रकल्प, सेवा मंदिर पथ,
रूपनगर, गुवाहाटी-781032 (असम)

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा नामित गैर सरकारी सदस्य

9. श्री एम. पी. जमीर, हिन्दी नगर सदस्य
(हाउस नं. जीवीसी-474),
पादमपुखुरी, दीमापुर, नागालैंड

10. श्री चाऊ जिंगनू नामसुम, सदस्य
पुत्र स्व. श्री सी. पी. नामसुम, नामसाई,
लोहित जिला, अरुणाचल प्रदेश-792103

11. डॉ. अलख निरंजन सहाय, सदस्य
चौथी लेन, सेउजपुर,
डिब्रूगढ़-786001 (असम)

12. श्री दीपराज रॉय, पुत्र श्री गोपाल चंद्ररॉय, सदस्य
एम.एल.ए., 46, जगहारीमुरा,
निकट रामठाकुर संघ,
अगरतला-799004, त्रिपुरा (पश्चिम)

गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा नामित गैर सरकारी सदस्य

13. श्री सुनील मडापल्ली, सदस्य
वलियापुरयी हाउस, मडापल्ली कॉलेज,
पोस्ट वडाकारा-2,
कोजीकोडे-673102, केरल

14. श्री बालकृष्णन सी.बी., सदस्य
सविधाम हाउस, एडाकुलम,
पोस्ट कोईलन्डी, कोजीकोडे,
केरल-673306

15. श्री अचुथन पुथियेदथ, सदस्य
पुथियेदथ, पोस्ट चेरनदथूर,
धिरुवल्लूर, वडाकारा,
केरल-673541

सरकारी सदस्य

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय)

16. सचिव सदस्य

17. संयुक्त सचिव सदस्य

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

18. सचिव सदस्य

19. संयुक्त सचिव (विजय भूषण पाठक) सदस्य

20. संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार सदस्य

21. आर्थिक सलाहकार सदस्य

22. सभी निदेशक/उप सचिव, सदस्य
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

23. सचिव, पूर्वोत्तर परिषद्, शिलांग सदस्य

24. प्रबंध निदेशक, एन ई एच एच डी सी, गुवाहाटी	सदस्य
25. प्रबंध निदेशक, नेरामेक, गुवाहाटी	सदस्य
26. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नेडफी, गुवाहाटी	सदस्य
27. संयुक्त सचिव (प्रशा.)	सदस्य- सचिव

कार्य क्षेत्र

2. समिति का कार्य केन्द्रीय हिन्दी समिति और राजभाषा विभाग द्वारा सरकारी कामकाज के लिए हिन्दी के प्रयोग के संबंध में निर्धारित नीतियों को उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में कार्यान्वित करवाने के बारे में सलाह देना होगा।

कार्यकाल

3. समिति का कार्यकाल समिति के गठन की तारीख से, निम्नलिखित बातों के अधीन सामान्यतः तीन वर्ष का होगा :--

- (क) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने की स्थिति में इस समिति के सदस्य नहीं होंगे।
- (ख) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर बने रहने तक ही समिति के सदस्य रहेंगे।
- (ग) किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने अथवा समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे देने के कारण खाली हुए स्थान पर मनोनीत सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य होगा।

मुख्यालय

4. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा किन्तु समिति अपनी बैठकें आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य स्थान पर भी कर सकती है।

यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते

5. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं.-11/20034/04/2005 रा.भा. (नीति-2) दिनांक 03 फरवरी, 2006 द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि चूंकि केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा गठित हिन्दी सलाहकार समितियों में नामित 15 गैर-सरकारी सदस्यों में 06 संसद सदस्य होते हैं,

अतः यात्रा/दैनिक भत्ता प्रावधान को अधिक स्पष्ट करते हुए निम्न प्रावधान किया जाता है :--

- (क) समिति में नामित सांसदों को "संसद सदस्य (वेतन, भत्ता एवं पेंशन) अधिनियम, 1954" के प्रावधानों एवं समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जाएगा।
- (ख) समिति ने अन्य गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/22034/04/86-रा.भा. (क-2) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता देय होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के सभी सदस्यों राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिभंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों और सभी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, संसदीय राजभाषा समिति, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, भुगतान और लेखा कार्यालय, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के सभी अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत्त निकायों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

शेरिंग यांगज़ोम दास
संयुक्त सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 17 अगस्त 2012

ई-शासन परियोजनाओं के लिए नागरिक सहभागिता ढांचा और सरकारी एजेंसियों द्वारा सामाजिक मीडिया के प्रयोग के लिए ढांचा और दिशा-निर्देश

सं. 3(77)/2010-ईजीII--चूंकि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई), संचार और सूचना

प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) का संचालन कर रहा है जो सामाजिक मीडिया समेत विभिन्न ऑफलाइन चैनलों के साथ-साथ ऑनलाईन चैनलों का उपयोग करते हुए सभी पणधारकों के साथ संचार और प्रभावी नागरिक सहभागिता सुनिश्चित करने के साथ ई-सेवाओं के स्थायित्व और रख-रखाव के लिए मांग आधारित परिवेश का सृजन करना चाहता है।

और जैसा कि ई-सेवाओं और सेवा पहुंच चैनलों का विस्तृत प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के लिए ई-शासन के क्षेत्र में, जागरूकता और संचार उच्च प्राथमिकताएं हैं और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को एनईजीपी के अन्तर्गत समर्थ ई-सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए अधिदेशित किया गया है।

और जैसा कि नागरिक सहभागिता तथा सामाजिक मीडिया के प्रयोग के लिए ढांचे का सृजन करने की तत्काल आवश्यकता प्रतीत हुई है जो नागरिकों के उद्देश्यपूर्ण नियोजन के साथ ऐसे नियोजनों के लिए सामाजिक मीडिया प्लेटफॉर्मों को अधिक प्रभावी रूप से इस्तेमाल करने में सरकारी एजेंसियों को समर्थ बनाएगा।

और जैसा कि सक्षम प्राधिकारी ने ई-शासन परियोजनाओं में नागरिक सहभागिता के लिए ढांचे और सरकारी एजेंसियों द्वारा सामाजिक मीडिया के इस्तेमाल के लिए ढांचा और दिशा-निर्देशों को अनुमोदित कर दिया है।

अब, यह विभाग अधिसूचना की तारीख से ई-शासन परियोजनाओं में नागरिक सहभागिता के लिए ढांचा और सरकारी एजेंसियों द्वारा सामाजिक मीडिया के इस्तेमाल हेतु ढांचा और दिशा-निर्देश अधिसूचित करता है। इस ढांचे को www.mit.gov.in और www.negp.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

कृष्णा बिदानी
उप निदेशक

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 अगस्त 2012

संकल्प

सं. ए-14012/1/2010-रा.भा.नी.--श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के संकल्प संख्या-ई.14011/1/2009-रा.भा.नी., दिनांक 19 अक्टूबर, 2010 के संदर्भ में, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति में निम्नवत् आंशिक संशोधन किये जाते हैं :-

“संकल्प के क्रम सं. 28 पर गैर सरकारी सदस्य के रूप में अंकित श्री मोहन प्रकाश दूबे, राष्ट्रीय संयोजक, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के स्थान पर श्री सुरेश तिवारी, साहित्य एवं संस्कृति मंत्री, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति में गैर-सरकारी सदस्य/परिषद् के प्रतिनिधि के रूप में नामित किया जाता है।”

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस प्रस्ताव की एक-एक प्रति राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालय तथा विभागों एवं श्रम मंत्रालय के सभी कार्यालयों, जिनमें स्वायत्त तथा अर्द्ध-स्वायत्त निकाय भी शामिल हैं, को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

चन्द्र प्रकाश
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PLANNING
(PLANNING COMMISSION)

New Delhi-110001, the 8th August 2012

RESOLUTION

No. E.11011/1/2009-Hindi—In supersession of the Planning Commission's Resolution No. E-11011/1/2003-Hindi, dated 29th December, 2005 and the amended Resolution No. E-11011/1/2003-Hindi, dated 19th March, 2008, Government of India hereby reconstitutes the "Hindi Salahakar Samiti of the Ministry of Planning" as under :—

COMPOSITION

Minister of State for Planning Chairman

Non-Official Members:

Two MPs from Lok Sabha

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 1. Dr. Charan Das Mahant | Member |
| 2. Sh. Prahlad Venkatesh Joshi | Member |

Two MPs from Rajya Sabha

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 3. Sh. Parvez Hasmi | Member |
| 4. Sh. Balavant alias Bal Apte | Member |

Two MPs from the Committee of Parliament on Official Language

- | | |
|-------------------------|--------|
| 5. Sh. Pradeep Tamta | Member |
| 6. Sh. Dharmendra Yadav | Member |

Representative from Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad, XY-68, Sarojini Nagar, New Delhi

- | | |
|--------------------------|--------|
| 7. Dr. Parmanand Panchal | Member |
|--------------------------|--------|

Representative of Karnataka Mahila Hindi Seva Samiti, Bangalore—an organization involved in the propagation of Hindi

- | | |
|------------------------------|--------|
| 8. Sh. Krishan Kumar Grover, | Member |
| F/B-16, Tagore Garden, | |
| New Delhi-110027 | |

Non-Official Members nominated by the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language

- | | |
|-----------------------------|--------|
| 9. Smt. Kamladevi Shukla, | Member |
| House No. 10-448, Brahmpur, | |
| Near Sanitary Office, | |
| Gulbarga-585103, Karnataka | |

- | | |
|------------------------|--------|
| 10. Dr. Surendra Jain, | Member |
| 2KA 17, Manu Marg, | |
| Housing Board, Alwar | |
| Rajasthan | |

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 11. Sh. Krishan Kumar Haritwal, | Member |
| A-23, Bajaj Nagar, | |
| Jaipur-15, Rajasthan | |

Non-Official Members nominated by the Ministry of Planning

- | | |
|-----------------------|--------|
| 12. Sh. Manoj Sharma, | Member |
| G-40, Sector-3, | |
| Noida-201301 | |

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 13. Sh. Karn Dev Arya Shastri, | Member |
| Arya Samaj Mandir, | |
| 15, Hanuman Road, | |
| Connaught Place | |
| New Delhi | |

- | | |
|--------------------------|--------|
| 14. Dr. C. D. Shastri, | Member |
| 404/19, Shri Ram Colony, | |
| Civil Line Road, | |
| Gurdaspur, Punjab | |

- | | |
|-----------------------------|--------|
| 15. Dr. Vishvmurti Shastri, | Member |
| 3/127, Indira Vihar, | |
| Old Janipur, | |
| Jammu-180007 | |

Official Members

Department of Official Language (M/o Home Affairs)

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 16. Secretary, | Member |
| Department of Official Language | |

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 17. Joint Secretary, | Member |
| Department of Official Language | |

Ministry of Planning (Planning Commission)

- | | |
|---------------------|--------|
| 18. Secretary, | Member |
| Planning Commission | |

- | | |
|------------------------------|--------|
| 19. Director-General (UIDAI) | Member |
|------------------------------|--------|

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 20. Principal Adviser (LEM/DPPP) | Member |
|----------------------------------|--------|

- | | |
|------------------------------|--------|
| 21. Additional Secretary and | Member |
| Financial Adviser | |

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 22. Senior Adviser (VAC/HH/WC) | Member |
|--------------------------------|--------|

- | | |
|--------------------------|--------|
| 23. Senior Adviser (ICT) | Member |
|--------------------------|--------|

- | | |
|---------------------------|--------|
| 24. Senior Adviser (SJ&E) | Member |
|---------------------------|--------|

- | | |
|--------------------------|--------|
| 25. Adviser (Infra/Adm.) | Member |
|--------------------------|--------|

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 26. Joint Secretary (Adm./FR/SP) | Member |
|----------------------------------|--------|

27. Director, Institute of Applied Manpower Research	Member
28. Adviser (PEO)	Member
29. Joint Director (O.L.)	Member
30. Adviser (O.L.)	Member- Secretary

Functions

2. The function of the Samiti will be to render advice for the implementation of the policies laid down by the Kendriya Hindi Samiti and Department of Official Language regarding the use of Hindi for official purposes in the Ministry of Planning.

Tenure

3. The tenure of the Samiti will be normally three years from the date of its constitution subject to the following :

- a member of the Samiti who is a Member of Parliament will cease to be a member of the Samiti as soon as he ceases to be a 'Member of Parliament'.
- ex-officio members of the Samiti shall continue as members so long as they hold the office by virtue of which they are members of the Samiti;
- a member nominated in a vacancy arising in the Samiti due to the death or resignation of any member shall hold office for the residual term of three years.

Headquarters

4. The Headquarters of the Samiti shall be at New Delhi.

Travelling and other allowances

5. The non-official members will be paid travelling and daily allowances for attending the meetings of the Samiti at the rates fixed by the Government of India from time to time and as per instructions contained in the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India, Office Memorandum No. II/20034/04/2005-O.L. (Policy-2), dated 3 February, 2006.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be sent to all State Governments, Administrations of Union Territories, President's Secretariat, Vice-President's Secretariat, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Central Revenues and all Ministries/Departments of Government of India.

It is also ordered that this Resolution be Published in the Gazette of India for general information.

AMBRISH KUMAR
Adviser (OL)

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

New Delhi-110001, the 23rd August 2012

RESOLUTION

No. 1/02/2010-Hindi—In supersession of the Ministry of Development of North Eastern Region's resolution No. 1/06/2006-Hindi dated 20th November, 2008, the Government of India hereby, reconstitutes the Hindi Salahakar Samiti of the Ministry of Development of North Eastern Region as under :—

COMPOSITION

Minister of Development Chairman
of North Eastern Region Sh. Paban Singh
Ghatowar

Non-Official Members :—

Two MPs from Lok Sabha

- | | |
|----------------------------------------------|--------|
| 1. Sh. Dip Gogoi | Member |
| 2. Sh. Bhisma Shankar alias
Kushal Tiwari | Member |

Two MPs from Rajya Sabha

- | | |
|---------------------------|--------|
| 3. Sh. Bhubaneswar Kalita | Member |
| 4. Sh. Kumar Deepak Das | Member |

Two MPs form the Committee of Parliament on
Official Language

- | | |
|-------------------------------------------------------|--------|
| 5. Dr. Raghuvansh Prasad Singh,
(M. P., Lok Sabha) | Member |
|-------------------------------------------------------|--------|

- | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <p>6. Sh. Ninong Ering,
(M.P., Lok Sabha)

Representative from Kendriya Sachivalaya Hindi
Parisad, XY-68, Sarojini Nagar, New Delhi</p> <p>7. Sh. Mohan Prakash Dubey,
25/5, Sector-1, Pushp Vihar,
New Delhi-110017.

Representative from Akhil Bhartiya Hindi Sanstha
Sangh, 10788-89, Jhandewalan Road, Nabi
Karim, New Delhi-110055</p> | <p>Member</p> <p>Member</p> | <p>14. Sh. Balakrishnan C. V.,
Savidham House,
Edakulam (P.O.),
Koyilandy Kozhikode (Dt.),
Kerala-673306.</p> <p>15. Sh. Achuthan Puthiyedath,
Puthiyedath,
P.O. Cherandathoor,
Thiruvallloor, Vadakara,
Kerala-673541.</p> | <p>Member</p> <p>Member</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

Official Members

(Department of Official Language)

- | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| <p>8. Sh. Harikant Nath,
Mantri, Asam Rashtrabhasha
Prachar Samiti,
Rashtrabhasha Prakalp,
Sewa Mandir Path,
Roop Nagar,
Guwahati-781032 (Asam).</p> | <p>Member</p> | <p>16. Secretary</p> <p>17. Joint Secretary</p> | <p>Member</p> <p>Member</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

- | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Non-Official Members nominated by the Ministry
of Development of North-Eastern Region</p> | | <p>18. Secretary</p> <p>19. Joint Secretary
(Vijay Bhushan Pathak)</p> <p>20. Joint Secretary and
Financial Advisor</p> <p>21. Economic Advisor</p> <p>22. All Directors/Deputy
Secretaries of M/o DONER</p> <p>23. Secretary, NEC, Shillong</p> <p>24. Managing Director,
NEHHDC, Guwahati</p> <p>25. Managing Director, NERAMAC,
Guwahati</p> <p>26. Chairman & Managing Director,
NEDFi, Guwahati</p> <p>27. Joint Secretary (Admn.)</p> | <p>Member</p> <p>Member</p> <p>Member</p> <p>Member</p> <p>Member</p> <p>Member</p> <p>Member</p> <p>Member</p> <p>Member-Secretary</p> |
| <p>9. Sh. M. P. Jamir,
Hindi Nagar, Padumpukhuri,
Dimapur, Nagaland,
House No. G.B.C.-474.</p> <p>10. Sh. Chau Zingnu Namchoom,
S/o Late, Sh. C. P. Namchoom,
Namsai, District Lohit,
Arunachal Pradesh-792103.</p> <p>11. Dr. Alakh Niranjana Sahay,
4th Lane, Seujpur
Dibrugarh-786001 (Asam)</p> <p>12. Sh. Dipraj Roy,
S/o Sh. Gopal Chandra Roy,
M.L.A., 46 Jagaharimura,
Near Ramthakur Sangha,
Agartala, Tripura (W)-799004.</p> | <p>Member</p> <p>Member</p> <p>Member</p> <p>Member</p> | | |

Non-official member nominated by the Ministry of
Home Affairs

(Department of Official Language)

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <p>13. Sh. Sunil Madappally,
Valiyapurayi House,
Madappally College,
P.O. Vadakara-2,
Kozhikode-673102, Kerala.</p> | <p>Member</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

II. Functions

The functions of the Samiti will be to render advice for the implementation of the policies laid down by Kendriya Hindi Samiti and Department of Official Language regarding the use of Hindi for official purpose in the Ministry of Development of North Eastern Region.

III. Tenure

The tenure of the Samiti will ordinarily be three years from the date of its constitution provided that :—

- (a) the members of the Parliament who are the members of the Samiti shall cease to be the members of the Samiti as soon as they cease to be the Members of the Parliament;
- (b) ex-officio members of the Samiti shall continue to be the members of the Samiti as long as they hold the office by virtue of which they are the members of the Samiti; and
- (c) if any vacancy arises in the Samiti owing to the death of a member or owing to tendering of resignation by a member, the member so appointed against that vacancy shall hold office for the residual term of the Samiti.

IV. Headquarter

The Headquarters of the Samiti will be at New Delhi, but if considered necessary, it may hold its meetings at any other place also.

V. Travelling and other allowances

The Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India, vide their Office Memorandum No. II/20034/04/2005-OL (Policy-2) dated 3rd February, 2006 has stated that as the 15 non-official members include 6 Members of Parliament nominated in the Hindi Salahakar Samitis constituted by Central Ministries/Department, so the provision regarding travelling/daily allowance is made more elaborate in the following manner :—

- (a) The members of Parliament nominated in the Samiti will be paid travelling and daily allowance as per the provisions in the "Members of Parliament (Salary, Allowance and Pension) Act, 1954", amendments issued from time to time and rules made thereunder.
- (b) Travelling allowance and Daily Allowance to other non-official Members of the Samiti will be paid as per the guidelines contained in the Department of Official Language OM. No. II/20034/04/86-OL (A-2) dated 22nd January 1987 and in accordance with the prescribed rates and rules as amended from time to time by the Government of India.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the members of the Hindi Salahakar Samiti of the Ministry of the Development of North Eastern Region, President's Secretariat, Prime-Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, all Ministries/Departments of Government of India, all State Governments and Union Territory Administrations, Committee of the Parliament on the Official Language, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Election Commission, Union Public Service Commission, Pay and Accounts Office, Ministry of DoNER and all Subordinate Offices/Autonomous bodies of the Ministry of DoNER.

Ordered also that this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

TSHERING YANGZOM DAS
Jt. Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND
INFORMATION TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF ELECTRONICS &
INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 17th August 2012

Citizen Engagement Framework for e-Governance
Projects and Framework and guidelines for Use of
Social Media by Government Agencies

No. 3(77)/2010-EG-II—Whereas the Department of Electronics and Information Technology (DeitY), Ministry of Communications and Information Technology, Government of India (GoI) is driving the National e-Governance Plan (NeGP) which seeks to create the demand driven atmosphere for uptake of and sustainability of e-Services as well ensure effective citizen engagement and communication with all stakeholders using various offline as well online channels including Social Media.

AND Whereas Awareness and Communication in e-Governance are a high priority in order to ensure widespread dissemination of e-Services and service access channels and DeitY, GoI has been mandated to enhance visibility of e-Services enabled under NeGP.

AND Whereas an immediate need has been felt to create frameworks for citizen engagement and use of social media which would enable government agencies to undertake meaningful engagement with citizens as well leverage social media platforms more effectively for such engagements.

AND Whereas the Competent Authority has approved the Framework for Citizen Engagement for e-Governance Projects and Framework and Guidelines for Use of Social Media by Government Agencies.

NOW, this Department hereby notifies the Framework for Citizen Engagement for e-Governance Projects and Framework and Guidelines for Use of Social Media by Government Agencies w.e.f. the date of notification. The Frameworks can be downloaded from www.mit.gov.in and www.negp.gov.in

KRISHNA BIDANI
Dy. Dir.

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 22nd August 2012

RESOLUTION

No. A-14012/1/2010-RBN—With reference to Ministry of Labour & Employment's Resolution No. E-14011/1/2009-RBN, dated 19th October,

2010, the following partial modifications are made in Hindi Salahakar Samiti of Ministry of Labour & Employment :

"At Sl. No. 28, Shri Suresh Tiwari, Secretary, Literature and Culture, Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad is nominated as a non-official member in the Hindi Salahakar Samiti of Ministry of Labour & Employment in place of Shri Mohan Prakash Dubey, National Convener, Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad entered as Non-Official Member"

ORDER

Ordered that a copy of this resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administration, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Central Revenues and all Ministries and Departments of the Government of India and all offices of the Ministry of Labour & Employment including Autonomous and Semi-autonomous Bodies.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for General Information.

CHANDRA PRAKASH
Jt. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012